

# विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 02 | गुवाहाटी | रविवार, 28 जुलाई, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

कई मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार **पेज 2**

सीमांत चेतना मंच के सम्मेलन उद्घाटन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल कटारिया **पेज 3**

भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र : देवनानी **पेज 5**

हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद नताशा अपने देश वापस गईं, बेटे संग ... **पेज 7**

## केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत @2047 का सपना साकार होगा : पीएम



नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग कारिसिल की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई। इसमें 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत @2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र के सहयोग और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले दस वर्षों में स्थिर विकास हासिल किया है। भारतीय

अर्थव्यवस्था, जो 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2024 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने कहा कि अब सरकार और सभी नागरिकों का सामूहिक लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारे देश ने पिछले दस वर्षों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करके पहले ही काफी प्रगति की है। मुख्य रूप से आयात-संचालित देश होने से, भारत अब दुनिया को कई उत्पाद निर्यात करता है। देश ने रक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्ट-अप और खेल


भारत के विजन को विकसित राज्यों के माध्यम से साकार किया जा सकता है और विकसित भारत की आकांक्षा जमीनी स्तर यानी प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांव तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए, प्रत्येक राज्य और जिले को 2047 के लिए एक विजन बनाना चाहिए ताकि 2047 में विकसित भारत को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इसकी सफलता की कुंजी मापनीय मापदंडों की निरंतर और ऑनलाइन निगरानी थी, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई। प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए कौशल और प्रशिक्षण पर जोर दिया क्योंकि दुनिया कुशल मानव संसाधन के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने राज्यों को निवेशक-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने नीति आयोग को मापदंडों का एक निवेश-अनुकूल चार्टर तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें निवेश आकर्षित करने के लिए लागू की जाने वाली नीतियां, कार्यक्रम और प्रक्रियाएं शामिल होंगी। निवेश आकर्षित करने के लिए उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इन मापदंडों में उपलब्धि के आधार पर राज्यों की निगरानी की जा सकती है। उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए केवल प्रोत्साहन के बजाय कानून और व्यवस्था, सुराशन और बुनियादी

## नीति आयोग की बैठक छोड़ निकलीं ममता, माइक बंद करने का लगाया आरोप



नई दिल्ली (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग कारिसिल की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आईं। उन्होंने बंगाल के लिए फंड मांगने पर उनका माइक बंद करने का आरोप लगाया है। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे बैठक का बहिष्कार करके आई हैं। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए, असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री

## सभी सीएम को बोलने के लिए उचित समय दिया गया : सीतारमण



नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माइक्रोफोन बंद करने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि नीति आयोग की बैठक में प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय आवंटित किया गया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं। हम सभी ने उनकी बात सुनी। प्रत्येक मुख्यमंत्री को आवंटित समय दिया गया था और यह स्क्रीन पर दिखाया गया था, जो हर टेबल के सामने मौजूद थी। हम देख सकते

## न्यूज गैलरी

### पीआईबी ने ममता के दावे को किया खारिज

नई दिल्ली (हि.स.)। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के तहत गठित केंद्र अधिसूचित पीआईबी फेक्ट चेक ने नीति आयोग की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माइक बंद करने वाले दावे को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक से बाहर निकलकर मीडियाकर्मीयों से बातचीत में

### सीएम हिमंत और मुख्यमंत्री सांगमा सीमा विवाद पर करेंगे बैठक

शिलांग। मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसांग ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के सांगमा जल्द ही अंतरराज्यीय सीमा विवाद वार्ता के संबंध में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के साथ बैठक करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में अनुसार यह बैठक दूसरे चरण की वार्ता शुरू होने से पहले होगी। इस बैठक का उद्देश्य सीमा वार्ता के दौरान अपनाई जाने वाली कार्ययोजना

## अग्निवीरों को राज्य पुलिस में किया जाएगा शामिल : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व सरमा ने शनिवार को कहा कि असम के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स पर कहा कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निपथ योजना पर झूठ फैलाकर भारतीय सेना को कमजोर करने का विपक्षी दलों को मिशन विफल हो। असम सरकार ने राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करने का फैसला किया है। असम राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधुनिकीकरण के प्रयासों के साथ मजबूती से

## असम-पंजीकृत वाहनों को रोकने वाला मामला आसू और केएसयू ने एचएनवाईएफ की निंदा की

गुवाहाटी। अखिल असम छात्र संघ (एएसयू) और खासी छात्र संघ (केएसयू) ने 26 जुलाई को मेघालय के उमटीनगर में असम-पंजीकृत वाहनों को सोहरा और दावकी जाने से रोकने के लिए हिन्दीवैप नेशनल यूथ फेडरेशन (एचएनवाईएफ) की निंदा की। समूहों ने इस बात पर जोर दिया कि आसू और केएसयू दोनों का यह निरंतर प्रयास रहा है कि असम और मेघालय के लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हों, क्योंकि दोनों राज्य अवैध विदेशियों की घुसपैठ को समान समस्या से ग्रस्त हैं। एएसयू अध्यक्ष उत्पल शर्मा और महासचिव संकर ज्योति बरुआ;



तथा केएसयू अध्यक्ष लाम्बोकस्टारवेल मरनगर और महासचिव डोनाल्ड वी. थबाह ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञापन में कहा कि एएसयू और केएसयू

यह देखकर व्यथित हैं कि असम से आने वाले पर्यटक वाहनों, चाहे वे निजी हों या व्यावसायिक, को मेघालय में कई स्थानों पर रोका जा रहा है और राज्य में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (नेसी) के तत्वावधान में छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की। बैठक के दौरान, केएसयू ने कहा कि उसे असम से आने वाले वाहनों को रोके जाने की ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है, साथ ही उसने यह भी कहा कि वह ऐसी किसी भी पहल का दृढ़ता

## अगले 24 घंटों तक राज्य में लू की स्थिति बनी रहेगी : आईएमडी



गुवाहाटी। असम में अगले 24 घंटों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। पूर्वानुमानों के अनुसार तापमान 36 डिग्री से 38 डिग्री के बीच रहेगा। दक्षिणी असम में गर्मी का प्रकोप चरम पर रहने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस बीच, पश्चिमी असम में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 37 डिग्री तक रहेगा। अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दूसरी ओर, असम में पड़ रही भीषण गर्मी ने एक और व्यक्ति की जान ले ली, जब 55 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर जोगान कलिता की शनिवार, 27 जुलाई को रिंगिया में भीषण गर्मी के कारण मौत हो गई। सूत्रों से पता चला

## मोदी सरकार में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में हुई उल्लेखनीय वृद्धि : सिंधिया

गुवाहाटी (हि.स.)। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बीते 75 वर्षों में पूर्वोत्तर को उन्नत की गई लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। इस क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्या



केंद्र सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में

नौ से बढ़कर 17 हो गई है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में तीन नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। सिंधिया ने गुवाहाटी के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्वोत्तर में विकास और आपदा राहत के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए हैं। असम और सिक्किम में बाढ़ राहत के लिए

## एक और प्लेन क्रैश, कई लोगों की मौत

वाशिंगटन। अमेरिका के व्योमिंग प्रांत में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार कई लोगों की मौत होने के साथ ही जंगल में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कैम्बेल कार्डटी के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में बताया कि यह हादसा दोपहर करीब एक बजे हुआ, जब विमान व्योमिंग की सीमा के पास स्थित जिलेट शहर में उड़ान भर रहा था। उन्होंने कहा


## गाजा के एक स्कूल में एयर स्ट्राइक 30 फिलिस्तीनियों की मौत, सौ घायल

गाजा सीटी। मध्य गाजा के दीर अल बलाह में लड़कियों के स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 30 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने मध्य गाजा में खदीजा स्कूल परिसर के अंदर हमास कमांड और नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया था। दीर अल बलाह उन क्षेत्रों में से एक है जहां विस्थापित परिवार सबसे अधिक आबादी वाले हैं क्योंकि गाजा में भीषण लड़ाई के कारण कई लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। परेशान करने वाले दृश्य तब सामने आए जब एंजुलेंस घायल फिलिस्तीनियों को अल-अक्सा अस्पताल ले जा रही थीं, जबकि कुछ पीड़ित



खून से सने कपड़ों के साथ पैदल ही वहां पहुंचे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को अन्य हमलों में 14 लोग मारे गए। नियोजित

## अनंतनाग में खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत



अनंतनाग (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सिंथन-कोकरनाग मार्ग पर शनिवार को एक तेज रफ्तार मारुति स्विफ्ट कार सड़क से फिसलकर खाई में पथरों पर जा गिरी। इस हादसे में एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई। कोकरनाग के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सुहेल अहमद ने बताया कि यह दुर्घटना डक्सम नाका से 20 किलोमीटर दूर आरशान हट के पास हुई। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी इम्तियाज अहमद पत्नी, एक अन्य रिश्तेदार महिला और पांच बच्चों के साथ कार से किश्तवाड़ से माडवा किश्तवाड़ में अपने घर वापस आ रहे थे, जहां उनकी तेजाती थी। उसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया

केंद्र सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में

## संसद की प्राथमिक भूमिका संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली (हि.स.)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि संसद की प्राथमिक भूमिका संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि संसद से अधिक गंभीर लोकतंत्र का संरक्षक कोई नहीं हो सकता। धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यदि लोकतंत्र पर कोई संकट आता है, यदि लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला होता है तो



आपकी भूमिका निर्णायक होती है। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा के लिए कोई भी विषय वर्जित नहीं है, बशर्त उचित प्रक्रिया का पालन किया

जाए। उन्होंने कहा कि संसद की प्रक्रिया के नियमों में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए जाने पर किसी भी विषय, किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि अध्यक्ष के आचरण पर भी चर्चा की जा सकती है। संसद की स्वायत्तता और अधिकार पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद अपनी प्रक्रिया और कार्यवाही के लिए सर्वोच्च है। संसद में, संसद कोई भी कार्यवाही समीक्षा से परे है, चाहे वह कार्यपालिका हो या कोई अन्य प्राधिकारी। उन्होंने कहा कि

## कुपवाड़ा मुठभेड़ में एक जवान शहीद अधिकारी सहित चार घायल

कुपवाड़ा (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के करीब माखिल सेक्टर में सेना ने घुसपैठ को विफल करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इस दौरान घायल मेजर रैंक के एक अधिकारी



समेत चार भारतीय सैनिकों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि इस घटना में मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत पांच जवान घायल हुए। इनमें से एक जवान का बलिदान हो गया। सुरक्षाबलों को शनिवार सुबह माखिल सेक्टर की कामकारी पोस्ट पर कुछ संदिग्ध हलचल दिखी थी। इसके बाद सतर्क जवानों ने भारतीय सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहे आतंकियों को ललकारा तो उन्होंने



## सीमांत चेतना मंच के सम्मेलन उद्घाटन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल कटारिया

गुवाहाटी (हिंस)। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज चिरांग जिले के बंगोलो कॉलेज में सीमांत चेतना मंच, पूर्वोत्तर के असम राज्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा की भावना तभी सुनिश्चित होगी जब सीमांत क्षेत्रों के गांवों को शिक्षा, रोजगार, खेल और जीवन शैली में सुधार के मामले में पर्याप्त रूप से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर हमारे नागरिकों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने और राष्ट्रवाद की भावना को फिर से जगाने में बहुत योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर शुरू से ही उत्तर पूर्व के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एकजुट करने और अपनापन की भावना पैदा करने के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा है। अपने अथक कार्यों के कारण ही सीमावर्ती क्षेत्रों के

### चिरांग के जिला प्रशासन के साथ बैठक की



लोगों को देश की सेवा के लिए संसाधनपूर्ण इकाई के रूप में संगठित किया गया है। असम की प्रथम महिला अनीता कटारिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी उल्लास कुलकर्णी, राष्ट्रीय समन्वयक, सीमा जागरण मंच मुलीधर, सीईएम बीटीआर प्रमोद

बोर्डे सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। बाद में, राज्यपाल ने अपने निचले असम दौरे के अंतिम चरण में डीसी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में चिरांग के जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान,

राज्यपाल ने राज्य और केंद्र सरकार के प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न विभागों की गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए आधार सीडिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जिला आयुक्त को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के निर्माण में तेजी लाने के लिए भी कहा। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने हाई स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति पर गौर किया और डीसी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि शिक्षकों की सेवाओं का जिले के मानव संसाधन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की

समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने जिले में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ई-केवाईसी पहलों के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहना की। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने चल रही विकास परियोजनाओं पर गौर किया। उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की समीक्षा की और डीसी से योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने नाबाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक के साथ बातचीत में राज्यपाल ने जिले की मौजूदा कानून व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से साइबर अपराधों से निपटने के लिए कर्मियों और सामग्रियों का उपयोग करने को कहा।

## कोहिमा में भीषण भूस्खलन चार घर क्षतिग्रस्त



कोहिमा। भारी बारिश के कारण कोहिमा में हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम चार घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि यह घटना नॉर्थ ब्लॉक में वार्ड-3 की पेओलियाट्सी कॉलोनी में हुई। उन्होंने बताया कि भूस्खलन से आस-पास के कुछ मकान भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और कम से कम 20 परिवार बेघर हो गए हैं। कोहिमा नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षदों ने अपने अध्यक्ष नेह्रुखो सुखरी और उपाध्यक्ष के. चुप्री के नेतृत्व में प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुखरी ने कहा कि यह क्षेत्र धंस रहा है और कोहिमा नगर परिषद (केएमसी) राज्य सरकार के परामर्श से एक सुरक्षात्मक दीवार और जल निकासी को लेकर पायलट परियोजना शुरू करेगी। प्रभावित वार्ड के पार्षद स्कुओवोली रूसा ने कहा कि क्षेत्र में इतना बड़ा भूस्खलन 2017 के बाद पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग प्रभावित परिवारों को मदद कर रहे हैं।

## आमगुरी चाय बागान में ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की मौत

शिवसागर (हिंस)। शिवसागर जिले के आमगुरी चाय बागान में चाय पत्ती ले जा रहे ट्रैक्टर (एएस-04ए-7473) की चपट में आने से एक महिला की मौत हुई। मृतक महिला को पहचान गुणेश्वरी तासा (80) के रूप में हुई है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह घटना आमगुरी चाय बागान के निचले लाइन में हुई। चलते ट्रैक्टर के पिछले पहिए के नीचे आ जाने के कारण महिला की मौत हुई। लोगों ने इसे रहस्यमय बताया कि महिला चलते ट्रैक्टर के पिछले पहिए के नीचे कैसे पहुंची। घटना को लेकर काफी उत्तेजना फैल गई है। दुर्घटना का कारण बनने वाले ट्रैक्टर को जब नहीं किए जाने के कारण पुलिस के प्रति लोगों का आक्रोश देखा गया है। असम टी ट्राइब्स स्टूडेंट्स यूनिन और टी वर्कर्स लिबरेशन स्ट्रगल कमिटी ने घटना की जांच किए जाने की मांग की है।

## होजाई में ड्रग्स के साथ पांच गिरफ्तार

होजाई (हिंस)। होजाई पुलिस द्वारा जोदापर नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने होजाई रेलवे स्टेशन के पास छापा मारकर पांच युवकों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि पुलिस ने युवकों के कब्जे से हेरोइन से भरे छह कंटेनर जब्त किए हैं। गिरफ्तार युवकों में शफीकुल इस्लाम, अरफ अली, जमीर हुसैन, बिट्टू मंडल और अरुण शहा शामिल हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस होजाई पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है।

## किशोरी की हत्या मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार

कामरूप (हिंस)। हाजो के एक युवक को किशोरी को प्रेम के जाल में फंसाकर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि हाजो के चोम्बाई मोखनिया गांव के राहुल हुसैन को चांगसारी से गिरफ्तार किया गया है। राहुल हुसैन पर हाजो के

भैल्याबाड़ी की एक किशोरी की हत्या का आरोप है। उल्लेखनीय है कि 15 वर्षीय किशोरी नीता दास का शव गुरुवार तड़के बागटा-भैल्याबाड़ी को जोड़ने वाली सड़क पर एक पुलिया के नीचे पानी में तैरता हुआ मिला था। मधुआरों ने बीती रात से ही लापता किशोरी का शव देखकर परिवार के सदस्यों को

सूचित किया था। शव के पास से लड़की का सैंडल और एक मोबाइल फोन उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बरामद किया गया था। उस मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर हाजो पुलिस राहुल हुसैन को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आरोपी कामरूप (ग्रामीण) जिले के चांगसारी में छिपा हुआ था।

## पत्नी ने प्रेमी के साथ

### मिलकर की पति की हत्या

बंगाईगांव (हिंस)। अभयापुरी में एक महिला द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने का मामला उजागर हुआ है। मृतक की पहचान कृष्ण मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि हत्या के 24 घंटे के अंदर आज हत्यारे को पुलिस ने पकड़ लिया। हत्या के मास्टरमाइंड मृतक कृष्ण मंडल की पत्नी मधुमाला मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह नृशंस हत्या शुरुवार की रात अभयापुरी के पीराधारा में हुई। उनकी पत्नी मधुमाला मजूमदार ने हत्या को डकैती की घटना दिखाने की कोशिश की। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीमें, स्निफर डॉग के साथ सघन अभियान चलाया। विश्वजीत सरकार मधुमाला मजूमदार का नाजायज प्रेमी था। उन दोनों ने सुनियोजित तरीके से कृष्ण मंडल को मौत के घाट उतार दिया।

## बंधन बैंक का कुल कारोबार 22 प्रतिशत बढ़कर हुआ 2.59 लाख करोड़ रुपए

कोलकाता। बंधन बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की। बैंक का कुल कारोबार 22 प्रतिशत बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कुल जमा में अब बैंक की खुदरा हिस्सेदारी लगभग 69 प्रतिशत है। पिछली तिमाही में देखी गई उत्साहजनक बढ़त वितरण, व्यावसायिक दक्षता और अनुकूल परिचालन वातावरण में इसके विस्तार से प्रेरित है। बैंक अब भारत में 6,300 बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से 3.44 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। बंधन बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या अब लगभग 77,500 है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान बैंक की जमागणिका में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत की बढ़त हुई। कुल जमागणिका अब 1.33 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि कुल एडवॉंस 1.26 लाख करोड़ रुपए हैं। चालू खाता और बचत खाता (सीएसए) अनुपात समग्र

जमागणिका के 33.4 प्रतिशत है। बैंक की स्थिरता का सूचक पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 15.7 प्रतिशत है, जो विनियामक आवश्यकता से अधिक है। बैंक के एमडी और सीईओ रतन कुमार केश ने कहा कि साल की पहली तिमाही हमारे कारोबाड़ी प्रदर्शन का प्रमाण है जिसे हम पूरे साल बनाए रखना चाहते हैं। हमने प्रमुख मापदंडों में स्थिरता और वृद्धि का प्रदर्शन किया है। बंधन बैंक की नींव उसके ग्राहकों के भरोसे और उसके कर्मचारियों की अटूट प्रतिबद्धता पर टिकी है। ये आधारशिलाएं, प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया, उत्पाद और लोगों पर ध्यान देने के साथ, बंधन बैंक 2.0 के विकास पथ को आगे बढ़ाएंगी। बैंक अपनी खुदरा बही को बढ़ाने के स्पष्ट इरादे के साथ जारी रखता है। बैंक उच्च उत्पादकता के साथ ध्यान पर्याप्त विविधीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। बैंक उच्च उत्पादकता के साथ ध्यान के लिए अधिक डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है। इससे ग्राहक अनुभव में समग्र बढ़त भी होगी।

## बंगाईगांव में पानी में

### गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत

बंगाईगांव (हिंस)। बंगाईगांव में पानी में गिरने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह घटना जिले के बड़तामारी के ढाकनाबाड़ी में हुई। अजीजुल शेख नामक मृतक दो अन्य साथियों के साथ तुनिया नदी में केले की नाव चलाने गया था। वह अचानक नदी में गिर गया। बाद में स्थानीय लोगों ने बच्चे को नदी से बाहर निकाला और बड़तामारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तीसरी कक्षा का छात्र अजीजुल गामा की छुट्टियों में धुबड़ी जिले के फुलिमारो से बड़तामारी के ढाकनाबाड़ी आया था। इस घटना से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है।

## कारगिल के शहीदों को लायंस उमंग ने दी श्रद्धांजलि

गुवाहाटी। देश की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी उमंग की ओर से आज कारगिल दिवस के मौके पर से श्रद्धांजलि दी गई। क्लब की जनसंपर्क अधिकारी सुनीता पारीक ने बताया कि अध्यक्ष पायल चट्टा के नेतृत्व में आज कारगिल विजय दिवस का आयोजन राजगढ़ स्थित आइकॉन इंग्लिश स्कूल परिसर में किया गया। इस मौके पर एनसीसी ग्रुप कमांडर बिगोडियर अजीत कुमार बोरा, एनसीसी गुवाहाटी 50 एयर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अधिकारी विंग कमांडर हुवे उपाध्याय, एनसीसी असम नवल यूनिट के सीओ लेफ्टिनेंट कमांडर देवानंद दोले की उपस्थिति में की उपस्थिति में बड़ी संख्या में



क्लब की सदस्याओं ने दीपक जलाकर व राष्ट्रीय गान गाकर जांबाज जवानों को याद किया। इस मौके पर जिलापाल सीमा गोयनका, जिलापाल (द्वितीय) मनोज भजनका, कैबिनेट सचिव दिलीप

## पूर्व मंत्री डॉ. अर्द्धेंदु कुमार दे की मनी पुण्यतिथि



होजाई (निंस)। सर्व भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष व असम सरकार के पूर्व मंत्री डॉ. अर्द्धेंदु कुमार दे की द्वितीय पुण्यतिथि पर आज उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। उनके शुभचिंतकों द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा स्थानीय नैनी गोपाल गेस्ट हाउस में आयोजित हुई। स्थानीय विधायक रामकृष्ण घोष, शिक्षिका। उमा बोमिक, समाज समाजसेवी प्रमोद रंजन दास, फैजूल इस्लाम, लामाडिंग के पूर्व विधायक सपन कर सहित कई विशिष्ट जन उपस्थिति थे।

## योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगे

इश्वर उन्हें सदागति प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा कि विधायक पूंजी से वे उनकी प्रतिमा हेतु पूंजी प्रदान करेंगे। वही सभा में उपस्थित सभी ने अपने संबोधन में कहा कि होजाई वासियों ने कभी भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को लेकर उनके पास गया उसका समाधान करते। इसी के चलते सभी लोग उन्हें आदर सम्मान के साथ देखते थे। उक्त कार्यक्रम का संचालन विजय चक्रवर्ती ने किया। वही हमारे संवाददाता से बात करते हुए डॉ. दे के शुभचिंतक व समाजसेवी विजय चक्रवर्ती ने कहा की हम चाहते हैं कि उनके नाम से एक रास्ता हो, बालिका महाविद्यालय में उनकी प्रतिमा स्थापित हो, होजाई स्थित शांतिवन में भी उनकी प्रतिमा स्थापित हो, उनके जन्म दिवस पर उनकी याद में एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशित की जाएगी। उल्लेखयोग्य है उनका निधन 27 जुलाई 2022 को हुआ था।

## एनवाई सिनेमाज, रुद्राक्ष मॉल में भारतीय सेना के लिए कारगिल विजय दिवस समारोह

गुवाहाटी। 26 जुलाई, 2024 को प्रसिद्ध अभिनेता श्री अजय देवगन के स्वामित्व वाली मल्टीप्लेक्स श्रृंखला, एनवाई सिनेमाज ने भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दूसरे वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर गुवाहाटी के रुद्राक्ष मॉल स्थित एनवाई सिनेमाज में एक विशेष फिल्म स्क्रीनिंग और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण दिन के समारोह में भाग लेने के लिए गुवाहाटी स्थित भारतीय सेना छावनी से 250 से अधिक सैन्य कर्मियों को उनके परिवारों के साथ आमंत्रित किया गया था। सिनेमा हॉल के अंदरूनी हिस्से को तिरंगे सजावट से सजाया गया था, जिससे पूरे कार्यक्रम में उत्सव और देशभक्ति का माहौल बन गया। भारतीय सेना के अधिकारियों और उनके परिवारों ने एनवाई सिनेमा द्वारा पेश किए गए स्वादिष्ट स्नैक्स के साथ नवीनतम फिल्म बैड न्यूज का आनंद लिया। इस कार्यक्रम ने भारतीय सेना के समर्पण और बलिदान का सम्मान करने और उसकी सराहना करने के लिए एनवाई सिनेमाज की



प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिससे यह उपस्थित सभी लोगों के लिए एक यादगार दिन बन गया। हमारा प्रयास हमारे सैनिकों की स्थायी भावना को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हमें उन लोगों को एक यादगार फिल्म अनुभव प्रदान करने पर गर्व है जिन्होंने हमारे लिए इतना बलिदान स्वीकार


किया है। यह दिन उनके साहस को पहचानने और उसकी सराहना करने के लिए समर्पित है। हमें उम्मीद है कि खुशी और दौरेती के ये पल उनके चेहरों पर मुस्कान लाएंगे। एनवाई सिनेमाज में, हम हमेशा उन नायकों को पहचानने और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं।

## क्या है असम का हमार ग्रुप, कोर्ट ने तीन उग्रवादियों के शव सेफ रखने को क्यों कहा है?

गुवाहाटी। असम पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में तीनों हमार लोगों की हत्या किए जाने के उनके परिवारों के आरोप की शुरुआत में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने प्रकृष्टभूमि को निर्देश दिया कि तीनों हमार लोगों के शवों को अगली सुनवाई तक मुर्दाघर में सुरक्षित रखा जाए, जब राज्य अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करेगा। जानकारी के मुताबिक, मणिपुर के फेरजावल जिले के सेनवोन गांव के निवासी जोशुआ, और असम के कछार जिले के के बेंथेल गांव के निवासी ललुगावी हमार और लाकनोबकुंग हमार-की 17 जुलाई को कछार पुलिस की हिरासत में हत्या कर दी गई थी। असम पुलिस का दावा है कि तीनों उग्रवादी थे, जिन्हें उन्होंने पिछले दिन

पकड़ा था। पुलिस का दावा है कि ये लोग अन्य उग्रवादियों के खिलाफ एक विशेष अभियान में थे, जिसके दौरान गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। तीनों के परिवार को हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और उन्होंने असम के बाहर के डॉक्टरों से पोस्ट-मार्टम कराए जाने की मांग की है। शुरुआत को असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने सिलचर में डिजिटल कॉलेज एवं अस्पताल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सीमित्र सैकिया की उच्च न्यायालय की खंडपीठ को सौंप दी थी। हालांकि, कोर्ट ने देखा कि मृत्यु के कारण पर अंतिम राय के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया था क्योंकि फॉरेंसिक

विज्ञान निदेशालय से रिपोर्ट नहीं आई थी। इस चूक के कारण, अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य 2 आगस्ट को अगली सुनवाई से पहले अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक प्रति के साथ अपना विरोध-हलफनामा दायर करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए बकील कॉलिन गॉजालिव्स ने अदालत को बताया कि वे चाहते हैं कि पोस्टमार्टम स्वतंत्र डॉक्टरों द्वारा किया जाए, संभवतः मिजोरम से क्योंकि यह पास में है और मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। महाधिवक्ता सैकिया ने मिजोरम के डॉक्टरों को इसमें शामिल करने के खिलाफ तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि शवों को बाहर निकाला जाना चाहिए क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान सब कुछ



रिकॉर्ड किया गया था। इस वजह से शवों को बाहर निकाला जाए और उचित सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए।

बराक घाटी में मणिपुर के लोगों की एक बड़ी संख्या रहती है। 30 प्रतिशत एक समुदाय से जुड़े लोग हैं। अन्य 70 प्रतिशत दूसरे समुदाय से जुड़े लोग हैं। मैं यहां अपने समुदाय से जुड़े लोग हूँ। मैं यहां साल से लगातार प्रयास हो रहे हैं। वे उस हिंसा को असम राज्य में फैलाना चाहते हैं, और असम पुलिस इस पर बहुत सख्त आपत्ति जता रही है। अब, कुछ बाहरी ताकतों के कहने पर, वे असम पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कछार मणिपुर के जिरौबाम जिले की सीमा पर है, जहां पिछले महीने से ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से वहां का माहौल गर्मागमा हुआ है और हमरा समुदाय कुकी-जो जातीय समूह का हिस्सा है जो राज्य में

मेइती लोगों के साथ संघर्ष में है। संघर्ष के कारण कई लोग कछार में चले गए हैं। मिजोरम में भी हमारा की एक बड़ी आबादी है। गोंजालवेज ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से मिजोरम साल से लगातार प्रयास हो रहे हैं। वे उस हिंसा को असम राज्य में फैलाना चाहते हैं, और असम पुलिस इस पर बहुत सख्त आपत्ति जता रही है। अब, कुछ बाहरी ताकतों के कहने पर, वे असम पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कछार मणिपुर के जिरौबाम जिले की सीमा पर है, जहां पिछले महीने से ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से वहां का माहौल गर्मागमा हुआ है और हमरा समुदाय कुकी-जो जातीय समूह का हिस्सा है जो राज्य में



# भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र : देवनानी

**जयपुर (हिंस)।** राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को महान बनाने में यहां की समृद्ध संवैधानिक परम्पराएं, नियम और प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में इस महान लोकतंत्र को इसी प्रकार जीवित रखने में देश के युवाओं का अहम योगदान होगा। देवनानी शनिवार को राजस्थान विधानसभा में राष्ट्र मंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में आयोजित युवा संसद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही न्याय सभा तथा राज सभा के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रही हैं। भारत के जन जन के मन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और व्यवस्थाओं के प्रति गहरी आस्था है। उन्होंने युवा संसद में उपस्थित युवाओं का आह्वान किया कि इस संसदीय व्यवस्था में भागीदार बनकर इस महान लोकतंत्र में एक नयी ऊर्जा



का संचार करें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में कई बार अत्यंत संसदीय घटनाओं के कारण मन व्यथित होता है। असहनीयता इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने युवाओं को कहा कि सहनशील और शिक्षित बनकर वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा कार्य करते रहें। देवनानी ने

कहा कि संविधान के आधार पर ही देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका कार्य करती हैं इसलिए देश के युवाओं को संविधान में अपनी गहरी आस्था रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के युवा जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कार्य करें। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन

करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में काम करें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हमेशा दिन-दुखी, पिछड़े और गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करें और समाज में अंधकार और अशिक्षा को दूर करने में अपने तन-मन-धन से हर संभव सहयोग करें। उन्होंने स्वयं के शिक्षक रहते हुए अनेक अनुभव साझा करते हुए सदन में उपस्थित विद्यार्थियों को कहा कि मन में जिज्ञासा और गुणात्मक कार्यों में हमेशा अपनी रूचि बनाये रखें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के विकास, कानूनों की क्रियान्विति आदि का निर्धारण विधानसभा से ही होता है। इस पवित्र सदन में आना बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को कहा कि सदन में बैठकर यहां की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझकर एक जागरूक नागरिक बनें। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के सीमित उपयोग और फेक न्यूज के प्रति जागरूक रहने को कहा। विधायक

और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव संदीप शर्मा ने समारोह में स्वागत और आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि संघ द्वारा आयोजित किये जा रहे युवा संसद कार्यक्रमों से युवाओं को लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं, दूसरे के विचारों का सम्मान और विधायिका के कामकाज को बारीकी से समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में विधान सभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, विशिष्ट सचिव के अधिकारी व कर्मचारी तथा एसएमएस विद्यालय के अध्यक्ष मौजूद थे। कार्यक्रम में 41 विद्यार्थियों के 181 विद्यार्थियों द्वारा विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे गए एवं उनके द्वारा ही स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व मंत्री की भूमिका निभाई गई। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में जयपुर के 20 और राज्य के अन्य जिलों व राज्यों के 21 विद्यालयों ने कार्यक्रम में भाग लिया।



**जोधपुर (हिंस)।** लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि न्याय पालिका मजबूत है इसलिए भारत का लोकतंत्र मजबूत है और इसकी विश्वसनीयता देश और दुनिया में एक अलग पहचान रखती है। राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनियम जुबली महोत्सव के तहत आयोजित सेमिनार में भाग लेने आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी न्याय यात्रा बहुत

स्पष्ट और पारदर्शी है। लोकतंत्र में न्यायपालिका मजबूत होने से पूरा लोकतंत्र मजबूत रहता है। लोकतंत्र की मजबूती का आभास इसी से होता है कि लोकतंत्र की स्थापना के समय जो विकास के लिये 400 करोड़ से बजट यात्रा शुरू की थी वो आज 48 लाख हजार करोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का भी देश की न्याय पालिका में विशिष्ट स्थान रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के कई न्यायाधिपति ने सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधिपति की भूमिका निभाई है। इसके साथ राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत करने वाले कई अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी अपनी वकालत का लोहा मनवाया है। यह होंगे कार्यक्रम : राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनियम जुबली के अवसर पर न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर आयोजित इस सेमिनार के मुख्य वक्ता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। कार्यक्रम में अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति पंकज मिश्र, न्यायाधिपति संदीप मेहता, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एम एम श्रीवास्तव, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधिपति एस एस सिंघे होंगे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पुष्पेन्द्रसिंह भाटी भी मौजूद रहेंगे।

## विहिप व बजरंग दल ने मनाई कारगिल विजय दिवस वर्षगांठ

**जाँद (हिंस)।** गांव खेड़ा खेमावती स्थित हनुमान मंदिर में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के जिलामंत्री प्रमोद गौतम ने शिरकत की। इस मौके पर जुटे कार्यकर्ताओं ने शहीदों का नाम किया और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत गाए तथा जयघोष किया। अपने संबोधन में प्रमोद गौतम ने कहा कि सभी बलिदानियों का कर्ज हम पर है। भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। इन वीर जवानों के त्याग एवं बलिदान के कारण ही राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं। 25 वर्ष पूर्व भारत के वीर सैनिकों ने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर अदम्य साहस और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की एक ऐसी गाथा लिखी थी, जिसे भारतवर्सी सभी भी नहीं भुला सकते। इस युद्ध में भारत के वीर सैनिकों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल करके दुश्मन को एक बार फिर यह चेतावनी दी थी कि हमारी सीमाओं की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। इस मौके पर मुआना प्रखंड अध्यक्ष राम सिंह नंबरदार, भूपेन्द्र, रामसिंह बैरगी, डॉ. इंद्रजीत, सुखविंदर गुलाटी, पवन पाल, शमशेर सैनी, अंकुश गोपाल व सत्यदेव चौबे विशेष रूप से मौजूद थे।

## हरियाणा को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 14 हजार करोड़ देगी मोदी सरकार : बिप्लब देव

**हिसार (हिंस)।** हरियाणा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने कहा है कि केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए हरियाणा को 14 हजार करोड़ रुपए देगी। उन्होंने इस बार के केंद्रीय बजट की खुशियां गिनाते के साथ-साथ कांग्रेस द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार पर भी हमला बोला। बिप्लब कुमार देव शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर राजनीति करती है और लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाकर गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट पर भी हरियाणा की जनता को गुमराह करने का घंटिया खेल खेल रही है, जबकि केंद्र सरकार ने हरियाणा का बजट में भी विशेष ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने लगभग 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। यह बजट 2013-2014 के यूपीए सरकार के 16 लाख करोड़ के बजट से तीन गुणा अधिक है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2024-25 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 18.2 प्रतिशत बढ़ाया है। जब बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की बुनियाद मजबूत होती है। बिप्लब देव ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए बजट में रोजगार का प्रावधान भी किया है जो यह प्रमाणित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वांग का ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का 2024-25 का यह बजट भारत को सशक्त बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बजट पर अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि यह बजट सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है। उन्होंने कहा कि बजट पूरे देश के विकास के लिए होता है। अलग-अलग योजनाओं के लिए सभी राज्यों को पौने पांच लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। हरियाणा को भी 14 हजार करोड़ रुपए अलग-अलग स्कीमों के लिए मिलने वाले हैं।

## देश में 90 प्रतिशत समस्याओं की जड़ जातिवाद : एडवोकेट वजीर सिंह

**हिसार (हिंस)।** जातिविहीन समाज बनाने की मुहिम चला रहे एडवोकेट वजीर सिंह का कहना है कि देश में जातिवाद सबसे बड़ी व चिन्तनी समस्या है। राजनीतिक दल व अन्य संगठन इस जातिवाद रूपी बीमारी को समाप्त करने की बजाय और विकृत रूप देने में लगे हुए हैं। एडवोकेट वजीर सिंह शनिवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ ओमप्रकाश, सतीश कुमार, सतबीर सिंह व प्रदीप भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, यहां तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने स्वार्थ साधने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, चाहे वह देहात व सामाजिक सौहार्द की कीमत पर भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि जातिवाद का खूब से ही विरोध रहा है और इसके खत्म करने के लिए हमारे समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने समय-समय पर प्रयास किए हैं, जिनमें मुख्यतः महात्मा बुध, रामानुजाचार्य, संत रविदास, दादू दयाल और गुरु नानक देव जी शामिल हैं।

## झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा जदयू, नीतीश के आवास पर हुई बैठक

**पटना (हिंस)।** आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी में लग गए हैं। ऐसे में बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सैन्ययुगी जदयू ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने आवास पर झारखंड जदयू के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी नेता से झारखंड चुनाव की तैयारी को लेकर भी जानकारी हासिल किया। इसके साथ झारखंड आने का भी भरोसा दिया। इस बैठक में इस बात पर मुहर लगी है कि जदयू झारखंड में भी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर झारखंड जदयू नेताओं को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खुद सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। इसके साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी हिस्सा लिया। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री आवास से वापस लौट रहे बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि हम लोग

झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। श्रवण कुमार ने कहा कि इस बैठक में कई मामले पर विचार हुआ है। इसमें पार्टी के उम्मीदवार वित्त किए जाने की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया गया है। इसके साथ चुनावी मैदान में इन बातों को लेकर उतरना है इसकी भी जानकारी हासिल की गई है। हमलोग गठबंधन झारखंड में निकन के साथ होगा। इसके बाद सीट और भी तमाम बातों की जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिलहाल, इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के अनुसार 22 अगस्त से या 24 अगस्त से हो आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। सितंबर के अंत तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है।

## स्कूली किताबें बेचने में फंसे हेडमास्टर, हुए निलंबित



**नवादा (हिंस)।** स्कूल में बच्चों के लिए आवंटित किताबें और एमडीएम का खाद्यान्न बेचने के मामले में हेडमास्टर साहब फंस गए हैं। उन्हें शनिवार को निलंबित कर दिया गया है। मामला नवादा जिले के मेसकौर प्रखंड के बारत पंचायत अंतर्गत आदर्श राजकीयकृत मध्य विद्यालय भोजनारथपुर के प्रधानाचार्य मनोज कुमार से जुड़ा है। पाठ्यपुस्तक एवं मध्य्यान्न भोजन का खाद्य सामग्री अवैध रूप से बेचे जाने के आरोप में शनिवार को उन्हें निलंबित किया गया है। गुरुवार 25 जुलाई को प्रधानाचार्य मनोज कुमार को विद्यालय करीब 5 बोरा पाठ्यपुस्तक एवं मध्य्यान्न भोजन का खाद्य सामग्री अवैध रूप से बेचेते हुए ग्रामीणों से हो रहा पकड़ था। तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना दूरभाष पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नौशाद अहमद एवं पत्रकारों को दी थी। सूचना मिलते ही बीईओ नौशाद अहमद एवं पत्रकार विद्यालय पहुंचे थे। जांच के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्रांक 383 दिनांक 24/07/2024 के द्वारा प्रधानाचार्य मनोज कुमार द्वारा विद्यालय में रखे पाठ्य पुस्तक एवं मध्य्यान्न भोजन के खाद्य सामग्री को अवैध रूप से रिक्के पर विद्यालय से बाहर बेचने के लिए ले जाने और इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा पकड़े जाने की बात स्वीकार किया जाना प्रतिवेदित किया था।

महिला पर अश्लील टिप्पणी का आरोपी दरोगा लाइन हाइजर झांसी (हिंस)। शिकायत कर्ता महिला के मामले की जांच के दौरान महिला के पति से फोन पर महिला को लेकर अश्लील टिप्पणी करने वाले एसआई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को लाइन हाइजर कर दिया है। यह एक्शन पुलिस कप्तान ने मामला संज्ञान में आने के बाद लिया। लाइन हाइजर करते हुए दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं। एसएसपी राजेश एस ने सोशल मीडिया पर सकार थाना में तैनात दरोगा दिविवजय ने एक महिला के शिकायती पत्र की जांच के दौरान उसके पति को फोन कर महिला के विषय में अश्लील टिप्पणी की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराकर एसआई दिविवजय को लाइन हाइजर कर दिया गया है। पूरे प्रकरण में विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक आडियो वायरल हुआ था।

## अग्निवीरों को अब राजस्थान में भी मिलेगा आरक्षण

**जयपुर (हिंस)।** सेना के अग्निवीरों को राजस्थान में भी आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस रजत जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सेना के अग्निवीरों को राजस्थान पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब जल्द ही यह भी तय होगा कि इन भर्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। कारगिल विजय दिवस पर चार राज्यों की भाजपा सरकारों ने अग्निवीरों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया है। राजस्थान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में पुलिस सेवा और पीएस, मध्यप्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बल, छत्तीसगढ़ में पुलिस और वनरक्षक भर्ती, ओडिशा में पुलिस भर्ती और उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लघु नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। चार साल में छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। चार साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेट्रिक के आधार पर 25 फीसदी अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा।

## जोधपुर में विहिप की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक का शुभारंभ

**जोधपुर (हिंस)।** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जोशी उपअध्यक्ष भैयाजी जोशी ने जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की दो दिवसीय बैठक का शनिवार को उद्घाटन हुआ। यहां के रातानाडा महाश्वरी भवन में आयोजित बैठक में देशभर के 47 प्रांत और 14 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। विहिप के प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने मीडियाकर्मीयों को बताया कि उद्घाटन सत्र में भैयाजी जोशी, विहिप के अंतर्राष्ट्रीय काय्यध्यक्ष आलोक कुमार, जैन संत ललित प्रभ सागर, जगतगुरु वैदेही वल्लभाचार्य महाराज, संत अमृतराम महाराज एवं साध्वी प्रियंवदा, विहिप के संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे, महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में संत ललित प्रभ सागर ने कहा कि आज हमें समानता, समरसता के भाव को बढ़ाते हुए कार्य करने की जरूरत है।

## पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें अर्पित की गई श्रद्धांजलि

**अयोध्या (हिंस)।** शिवदयाल जयसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तुलसीनगर में भारत के 11वें राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य अविन कुमार शुक्ल ने डॉक्टर कलाम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई जो 1974 में भारत द्वारा किए गए मूल परमाणु परीक्षण के बाद पहला परीक्षण था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वे हमेशा कहा करते थे कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा। राष्ट्रपति होने के बावजूद उनका जीवन बड़ा




सादा था। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सरलता और सहजता एक सफल जीवन की कुंजी है। डॉक्टर कलाम का 27 जुलाई 2015 को आईआईएम शिलांग में लेक्चर देते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से आचार्य लल्ला सिंह, कृष्णानंद तिवारी, अरविंद कुमार, उत्तम कुमार, मुकेश कुमार, परमात्मादीन, राम जी मिश्र, उर्मिला शुक्ला, सीमा पांडे, ज्योति तिवारी, विभा, आलोक, विनीत, चनय्याम सिंह, राम उजगर सहित सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे।

## बिहार के नवादा में आडाणी की सीमेंट फैक्ट्री का विरोध, नागरिकों ने जताया आक्रोश



**नवादा (हिंस)।** बिहार में नवादा जिले के वारिसलीगंज में आडाणी समूह के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के खिलाफ शनिवार को आयोजित वारिसलीगंज बंद का व्यापक असर देखा गया। दुकानें आम तौर पर बंद रही। बंद शांतिपूर्ण आयोजित करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 12 स्थानों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। बंद के दौरान किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती नहीं की गई। बंद के समर्थन में भी बहुत कम लोग सड़क पर उतरे। हालांकि, स्थानीय लोगों का समर्थन मिला और दुकानें बंद रखी गईं। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बंद का आह्वान किया गया था। अध्यक्ष गणेश सिंह, महासचिव राम पदार्थ सिंह, सचिव द्रोण प्रसाद के नेतृत्व में दर्जन भर लोग बाजार का भ्रमण कर बंद को सहयोग व समर्थन देने की अपील की गई। पटेल चौक,



गुमटी रोड, जय प्रकाश चौक, अंदर बाजार के बीच वारिसलीगंज के बीच बाजार के बीच दुकानदार स्वेच्छ से अपने प्रतिष्ठान को बंद कर आहूत बंद का समर्थन करते देखे गए। सीमेंट फैक्ट्री की जगह कृषि आधारित फैक्ट्री लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने वारिसलीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि वारिसलीगंज की बंद चीनी मिल की भूमि को पहले वियाडा को सौंपी गई थी। वियाडा द्वारा भूमि अडानी समूह को सीमेंट फैक्ट्री के लिए आवंटित कर दिया गया है। अडानी समूह यहां अंबुजा सीमेंट का प्लांट लगा रही है। करीब 1400 करोड़ रुपए अडानी समूह द्वारा यहां इवेस्ट करने की बात कही जा रही है। 29 जुलाई को शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचने वाले हैं। इसकी तैयारियां जोर-शोर से हो रही हैं। लेकिन, स्थानीय लोगों में से एक बड़े समूह को सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना



रास नहीं आ रही है। विरोध की दो वजहें प्रमुखता से गिनाई जा रही हैं। पहली ये कि विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि वारिसलीगंज का इलाका कृषि प्रधान है। चीनी मिल की भूमि पर चीनी मिल की ही स्थापना होनी चाहिए थी। चीनी मिल की स्थापना संभव नहीं हो रही थी, तो कृषि आधारित उद्योग लगाया जाना चाहिए था। इससे स्थानीय किसानों को लाभ होता। विरोध की दूसरी वजह स्वास्थ्य समस्या बताया जा रहा है। लोगों का मानना है कि सीमेंट प्लांट से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ेगा। वैसे, विरोध करने वालों से इतर कुछ अलग राय रखने वाले लोगों का कहना है कि सीमेंट प्लांट का रोजगार सृजन होगा। इलाके की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। विरोध व बाजार बंद का कितना असर राज्य सरकार और अडानी समूह पर पड़ता है, आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल तो शिलान्यास की तैयारियों की जा रही है। जो जानकारी छनकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही अडानी समूह के चीफ गौतम

# बीते सप्ताह एक फीसदी चढ़ा शेयर बाजार संसेक्स 81,332 और निफ्टी 24,834 पर बंद

**मुंबई।** वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और उम्मीदों से ज्यादा बेहतर अमेरिकी डेटा की वजह से बजट सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार ने तेजी बनाना जारी रखा। इस सप्ताह केंद्रीय बजट की घोषणाओं और इंडिया इंक के मिलेजुले नतीजों ने शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रखा। इस सप्ताह शेयर बाजार में एक फीसदी से ज्यादा तेजी दर्ज की गई। घरेलू शेयर बाजार के सप्ताह भर के कारोबार पर नजर डालें तो बजट पेश होने से एक दिन पहले शेयर बाजार का इंडेक्स संसेक्स 504 अंक गिरकर 80,100.65 अंक पर खुला और 102 अंक गिरकर 80,502 अंक पर बंद हुआ। जबकि एनएसई निफ्टी 50 168.6 अंक फिसलकर 24,362.30 अंक पर खुला और 21 अंक गिरकर 24,509 अंक पर बंद हुआ। मंगलवार को संसेक्स 166.41 अंक की तेजी के साथ 80,668.49 अंक पर खुला और 73.04 अंक की गिरावट के साथ 80,429.04 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 59.65 अंक की बढ़त के साथ 24,568.90 अंक पर खुला और 30.30 अंक की गिरावट के साथ 24,479.00 पर बंद हुआ। बुधवार को विदेशी फंड की निकासी और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख ने भी घरेलू बाजारों के लिए खेल बिगाड़ दिया। कमजोर शुरुआत के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई संसेक्स 233.7 अंक गिरकर 80,195.34 पर खुला और 280 अंक गिरकर 80,148 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 73.45 अंक गिरकर 24,405.60 पर खुला और 65 अंक गिरकर 24,413 पर बंद हुआ। गुरुवार को संसेक्स 606.77 अंक की गिरावट के साथ 79,542 पर खुला और 109.08 अंक गिरकर 80,039 पर बंद हुआ। निफ्टी 182.55 अंक की गिरावट के साथ 24,230 पर खुला और 7.40 अंक की मामूली गिरावट के साथ 24,406.10 अंक पर बंद हुआ। बीते कई दिनों की कमजोरी के बाद घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को सुबह हरियाली दिखी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन संसेक्स 218.08 अंकों की बढ़त के बाद 80,234.64 पर खुला और 1,292.9 अंक की बढ़त के साथ 81,332.7 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 77.41 अंक मजबूत होकर 24,483.50 पर खुला और 428.7 अंक की बढ़त के साथ 24,834.8 अंक पर बंद हुआ।



### न्यूज़ ब्रीफ


**कर प्रणाली को आसान बनाने का मतलब यह नहीं कि हर मामले में भार कम हो जाए, एलटीसीजी पर बोले राजस्व सचिव**



**नई दिल्ली।** वित्त वर्ष 2025 के बजट में विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर पूंजीगत लाभ करों को तर्कसंगत बनाने का फैसला कर सरलीकरण का उपाय है ना कि राजस्व बढ़ाने का तरीका। राजस्व सचिव संजय अग्रवाल ने उद्योग मंडल सीआईआई और एसोसोम के सदस्यों को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि क्या उद्योग जगत विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए अलग-अलग कर दरों के पक्ष में है वित्त वर्ष 2025 के बजट में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए विभिन्न एसेट क्लास के लिए होल्डिंग पीरियड को तर्कसंगत बनाया है। सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों के लिए होल्डिंग अधि अब दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) के लिए एक वर्ष कर दी गई है। गैर-सूचीबद्ध शेयरों, डिबेंचर और रियल एस्टेट के लिए, एलटीसीजी के लिए होल्डिंग अधि दो वर्ष है। एलटीसीजी कर को इंडेक्सेशन के लाभ के बिना सभी परिसंपत्ति वर्गों के लिए 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले, एलटीसीजी को छोड़कर सभी परिसंपत्ति वर्गों के लिए दर 20 प्रतिशत थी। रियल एस्टेट के लिए, यह इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत था। राजस्व सचिव संजय अग्रवाल ने कार्यक्रम में कहा कि पूंजीगत लाभ कर में बदलाव एक सरलीकरण उपाय है, न कि राजस्व बढ़ाने का उपाय। हां, राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन यह बहुत ही मामूली होगी।

### विजय माल्या को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोका, पहचान छिपाकर व्यापार करने का था आरोप

**नई दिल्ली।** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या पर तत्काल प्रभाव से तीन साल के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। माल्या पर अपनी पहचान छिपाकर भारतीय प्रतिभूतियों में व्यापार करने का आरोप है। सेबी ने कहा, माल्या को तीन साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित कंपनी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने से रोका जाता है। जारी एक आदेश में, सेबी ने कहा कि माल्या को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोका गया है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या अन्य लेनदेन करने या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने पर भी तीन साल तक प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, प्रतिबंध की अवधि के दौरान, माल्या की म्यूचुअल फंड की इकाइयों की होल्डिंग सक्षम प्रतिभूतियों की मौजूदा होल्डिंग जमी रहेंगी। सेबी ने अपने 37 पन्नों के आदेश में कहा कि यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि माल्या ने विदेश में रखे अपने अधिशेष धन को निवेश करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेश तंत्र या मार्ग का दुरुपयोग किया है। भारत में इन कंपनियों के निवेशकों को इनका खुलासा नहीं किया है। इसलिए, मुझे लगता है कि नोटिस प्राप्तकर्ता ने भारतीय कंपनियों के शेयरधारकों के हितों की हानि के लिए एफआईआई यानी इंटरनेशनल वैलर्स की आड़ में अपनी पहचान छिपाकर एफआईआई मार्ग के माध्यम से निवेश करने का स्पष्ट रूप से सहारा लिया है। नोटिस प्राप्तकर्ता के ऐसे कृत्तव्य ने केवल धोखाधड़ी और भ्रामक हैं, बल्कि प्रतिभूति बाजार की अखंडता के लिए खतरा है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने वित्तीय सेवा प्राधिकरण (जिसे अब वित्तीय आचरण प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है) से संचार में निष्कर्षों के आधार पर जांच के लिए मामला उठाया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युबी समूह के अध्यक्ष और युनाइटेड रिपिरिट्स लिमिटेड के व्यक्तिगत नियंत्रक शेयरधारक विजय माल्या द्वारा भारतीय प्रतिभूति बाजार में क्या धन का कोई मार्ग था।



**मारुति सुजुकी ने इगनिस का नया मॉडल लांच किया**  
**नई दिल्ली।** मारुति सुजुकी ने ऑटो से लेकर बलेनो तक कई हेचबैक कार को बाजार में उतारा है। इन हेचबैक कार के लाइनअप में इगनिस मॉडल भी शामिल है, जिसे कई लोग मारुति की यूरोपियन कार कहते हैं। इगनिस मॉडल को मारुति ने भारतीय बाजार में साल 2017 में लॉन्च किया था। पिछले कुछ सालों में इसकी सेल में गिरावट देखी गई। इसी गिरावट को रोकने के लिए अब मारुति ने इगनिस के नए रीडिज़ संस्करण को बाजार में लॉन्च किया है जो कि अपने रेगुलर मॉडल से लगभग 35 हजार रुपये सस्ता है।



## विकसित भारत के लिए असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना जरूरी कदम : फिक्की महानिदेशक

**नई दिल्ली।** फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने 23 जुलाई को पेश हुए केंद्रीय बजट की तारीफ की है और इसे रोजगार सृजन करने वाला बताया है। उनका कहना है कि, पिछले चुनावों में, रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, और सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ाने के उपायों को सही ढंग से तेज किया है। मध्यम वर्ग को भी लाभ हुआ है, नई कर व्यवस्था ने कुछ राहत प्रदान की है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर काफी ध्यान दिया गया है; सरकार न केवल इसके बारे में बात कर रही है बल्कि सक्रिय रूप से इसे आगे बढ़ा रही है। बजट को लेकर उन्होंने अपनी विशेष टिप्पणियों में और भी कई बातें कही हैं।  
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में श्रमिकों के हितों की रक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। किसी भी देश के विकास के लिए श्रम उत्पादकता बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की श्रमिक संख्या लगभग 56.5 करोड़ है, जिसमें से 45 प्रतिशत से अधिक कृषि में, 11.4 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र में, 28.9 प्रतिशत सेवाओं में और 13.0 प्रतिशत निर्माण में कार्यरत हैं।



**श्रम संबंधी मुद्दों की घोषणा स्वागत योग्य कदम**  
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान के अनुसार, भारत में काम करने वाली आयु की आबादी (15-59 वर्ष) 2044 तक बढ़ती रहेगी। इसी अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत है। केंद्रीय बजट में रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण उपायों और श्रम संबंधी सुधारों की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है।

**असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना जरूरी**  
विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना एक जरूरी कदम है। ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का पहला

**श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का रोल महत्वपूर्ण**  
श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल कारोबारों के लिए एक आधिकारिक कृशल, पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली श्रम इकोसिस्टम बन जाएगा। रिपोर्टिंग और रिटर्न जमा करने को सुविधा के लिए एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल को विकसित किया गया है। इस पोर्टल को परिकल्पना रोजगार देने वाली और एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच संपर्क बिंदु के रूप में की गई है, जो उनके कामों में पारदर्शिता लाता है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा के एकीकरण के लिए, किसी भी श्रम कानून के तहत प्रत्येक निरीक्षण योग्य इकाई को पोर्टल के तहत एक श्रम पहचान संख्या दी गयी गई है। यह इज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम है।

**वर्तमान जरूरतों के हिसाब से कौशल की कमी**  
भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र का है, और उनमें से कई लोगों के पास वर्तमान जरूरतों के हिसाब से जरूरी कौशल का अभाव है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 51.25 प्रतिशत युवा ही रोजगार के योग्य माने जाते हैं, दूसरे शब्दों में कहे तो लगभग हर दो में से एक युवा कौशल के तुरंत बाद रोजगार के योग्य नहीं होता है। सरकार द्वारा यह पहल शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच संबंध को मजबूत करने में मदद करेगी।

**कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना सराहनीय पहल**  
सरकार द्वारा की गई एक और सराहनीय पहल कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना और इंडस्ट्री के सहयोग से क्रेच की स्थापना करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। विश्व में सबसे युवा आबादी के साथ जो की 28 वर्ष की औसत आयु है, भारत अपने जनसंख्या के लाभांश का उपयोग कर सकता है जो रोजगार योग्य स्किल्स से लैस है और उद्योग की जरूरतों को पूरा कर सकता है। सरकारी योगदान और उद्योग द्वारा सीएसएआर (कसर) के साथ शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटरशिप के अवसर प्रदान करना एक बहुत ही नया विचार है। ये ट्रेनी उद्योग की जरूरतों के हिसाब से ज्ञान प्राप्त करने और पेशेवर नेटवर्क बनाने में सक्षम होंगे जिससे नौकरी के साथ-साथ स्व-रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

**कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना सराहनीय पहल**  
सरकार द्वारा की गई एक और सराहनीय पहल कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना और इंडस्ट्री के सहयोग से क्रेच की स्थापना करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। विश्व में सबसे युवा आबादी के साथ जो की 28 वर्ष की औसत आयु है, भारत अपने जनसंख्या के लाभांश का उपयोग कर सकता है जो रोजगार योग्य स्किल्स से लैस है और उद्योग की जरूरतों को पूरा कर सकता है। सरकारी योगदान और उद्योग द्वारा सीएसएआर (कसर) के साथ शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटरशिप के अवसर प्रदान करना एक बहुत ही नया विचार है। ये ट्रेनी उद्योग की जरूरतों के हिसाब से ज्ञान प्राप्त करने और पेशेवर नेटवर्क बनाने में सक्षम होंगे जिससे नौकरी के साथ-साथ स्व-रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

### डिजिटल पेमेंट में लगातार जारी है तेजी, आरबीआई डाटा - मार्च 2024 तक 12 फीसदी की हुई वृद्धि

**नई दिल्ली।** डिजिटल पेमेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक डेटा शीट जारी की है। आरबीआई इंडेक्स के अनुसार 31 मार्च 2024 तक देश भर में डिजिटल पेमेंट में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।



आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स (आरबीआई-डीपीआई) मार्च 2024 के अंत में 445.5 पर था, जबकि सितंबर 2023 में 418.77 और मार्च 2023 में 395.57 था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने बयान में कहा कि मार्च 2024 की अवधि के दौरान देश भर में पेमेंट परफॉर्मंस और पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में वृद्धि की वजह से डिजिटल पेमेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि सभी मापदंडों में हुई है।  
केंद्रीय बैंक ने देश भर में पेमेंट के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए आधार के रूप में मार्च 2018 में एक समग्र निर्माण की घोषणा की थी। इस इंडेक्स में

पांच व्यापक पैरामीटर शामिल हैं। यह पैरामीटर विभिन्न अवधियों में देश में डिजिटल पेमेंट की गहराई और पैठ को मापने में मदद करता है।  
ये पैरामीटर पेमेंट इनेब्लर्स (बेटेज 25 प्रतिशत), पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर - डिमांड-साइड फेक्टर्स (10 प्रतिशत), पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर - सप्लाई-साइड फेक्टर्स (15 प्रतिशत), पेमेंट परफॉर्मंस (45 प्रतिशत), और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी (5 प्रतिशत) हैं। मार्च 2021 से इस सूचकांक में चार महीने के अंतराल के साथ अर्ध-वार्षिक आधार पर डेटा को प्रकाशित किया जाता है।

## यूपी की तरह विभिन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर बनेंगे, विनिर्माण व रोजगारको मिलेगा बढ़ावा

**नई दिल्ली।** उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया, ऐसे दो औद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश और एक बिहार में विकसित किए जा रहे हैं। वहीं, आठ औद्योगिक शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि बजट में 12 नए औद्योगिक शहरों की घोषणा की गई है। इससे देश में इन शहरों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। आठ शहर पहले से ही विकास चरण में सचिव ने कहा, आठ औद्योगिक शहरों में से गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के आर्रिक, मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी और आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम में इनकी बसावट के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा चुका है। भूखंड आवंटन का काम चल रहा है। चार अन्य शहरों में भी सड़क संपर्क, पानी व बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में जुटी हुई है। कैबिनेट से करीब संपर्क सिंह ने कहा, इन शहरों के लिए योजनाएं तैयार हैं और जमीन राज्य सरकारों के पास है। हमें बस इन्हें



लिए गठित विशेष उद्देश्य वाली इकाइयों (एसपीवी) को इकट्ठी मंजूरी देनी है। डीपीआईआईटी नए शहरों के लिए कैबिनेट से संपर्क करेगा। सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिच फिच रेटिंग्स ने कहा, भारत का चुनाव बाद का बजट इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

के लिए प्रतिबद्ध है। फिच फिच रेटिंग्स ने कहा, भारत का चुनाव बाद का बजट इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

## भारत में 1.40 लाख से अधिक स्टार्टअप्स; सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश गुजरात से आगे

**नई दिल्ली।** भारत में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.4 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंत्री की ओर से सदन में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या से पता चला है कि महाराष्ट्र 25,044 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ सबसे अधिक है। कर्नाटक 15,019 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ दूसरे स्थान पर है, इसके बाद दिल्ली 14,734 स्टार्टअप के साथ है। उत्तर प्रदेश ने 13,299 स्टार्टअप के साथ चौथा स्थान हासिल किया है, जबकि गुजरात 11,436 स्टार्टअप के साथ पांचवें स्थान पर है।  
मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने



देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की।  
मंत्री ने यह भी कहा कि स्टार्टअप

इंडिया एक्शन प्लान में 19 कार्य वस्तुएं शामिल हैं, जो सरलीकरण और इंडोहोल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव्स, और इंडस्ट्री-एक डैमि या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस के लिए परिचालन एजेंसी है। योजना की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 14 वें और 15 वें वित्त आयोग के चक्रों में कुल 10,000 करोड़ रुपये प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।  
मंत्री ने कहा कि सरकार ने न केवल शुरुआती चरण, बीज चरण और विकास के चरण में स्टार्टअप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने के मामलों में उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाई है।

### बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट पहुंचे सुजुकी के चेयरमैन तोशिहरो, स्वच्छ ईंधन के प्रयोग पर यह बोले

**नई दिल्ली।** जापानी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सीईओ तोशिहरो सुजुकी ने बनासकांठा के बनास डेयरी स्थित बायो सीएनजी प्लांट का दौरा किया। पिछले साल, जापान की सुजुकी और बनास डेयरी ने एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) के सहयोग से एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था और 5 नए बायो-सीएनजी संयंत्र शुरू किए थे। बनास डेयरी के डीएम के दौरान जापानी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सीईओ तोशिहरो सुजुकी ने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। भारत में इस परियोजना को गति देने के लिए, हम बनास डेयरी और एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) के साथ काम कर रहे हैं। वहीं, बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी ने कहा, पांच साल पहले बनास डेयरी ने बायो-सीएनजी प्लांट शुरू किया था। तब हमारे पास पहले कोई शोध नहीं था, लेकिन पीएम मोदी ने हमसे वादा किया था कि गोबर गोबर नहीं बल्कि गोबर धन है, यह अपशिष्ट पदार्थ नहीं बल्कि धन है। बनास डेयरी ने उन शब्दों पर अमला किया। पांच साल की सफलता के बाद, हमें विश्वास है कि हम और प्लांट शुरू कर सकते हैं। पिछले साल, जापान की सुजुकी कंपनी और बनास डेयरी ने एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) के सहयोग से एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 1 लाख किंलो गाव के गोबर की क्षमता वाले 5 नए संयंत्र शुरू किए थे।



के लिए प्रतिबद्ध है। फिच फिच रेटिंग्स ने कहा, भारत का चुनाव बाद का बजट इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।



# हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद नताशा अपने देश वापस गईं, बेटे संग तस्वीर की शेयर

**मुंबई।** भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा आजकल खूब चर्चा में हैं। तलाक के बाद दोनों अपनी-अपनी लाइफ में बिजी हो गए। नताशा बेटे अगस्त्य के साथ खुश है और बेटे के साथ की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह बेटे के साथ एक एनिमल म्यूजियम में मस्ती करती दिख रही हैं। अब नताशा ने पेरेंटिंग के बारे में बात की है। वह अब सिंगल मदर है और बेटे की केयर कर रही है। नताशा का कहना है कि बच्चों पर सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने दुनिया को बहुत कठिन जगह बताया।

नताशा स्टेशनकीविक ने अपनी इंस्टा स्टोरी में अंजलि जगतानी का पेरेंटिंग पर लिखा कोट शेयर किया है। उसमें लिखा-अपने बच्चों पर सख्त मत बनो क्योंकि दुनिया बहुत कठिन जगह है। यह सच्चा प्यार नहीं है। यह बेकार किस्मत है। फेकट यह है कि जब वे आपके लिए पैदा होते हैं, तो आप

उनकी दुनिया होते हैं, और वह आपके प्यार करने के लिए होते हैं। नताशा ने तस्वीर शेयर की जिसमें अगस्त्य को ड्राइंग करते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर में एक और लड़का भी है नताशा और हार्दिक पांड्या चार साल तक साथ रहे।

नताशा और हार्दिक ने कुछ दिन पहले एक साझा बयान में तलाक की पुष्टि की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था। चार साल साथ रहने के बाद, नताशा और हार्दिक ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। आगे लिखा कि हमारा मानना है कि यह फैसला हम दोनों के हित में है। हमारे बीच जो खुशी, सम्मान और साथ था, उसे देखते हुए यह एक कठिन विकल्प था, खासकर जब हमारा परिवार बड़ा हो रहा था। तलाक के ऐलान के बाद नताशा अपने बेटे अगस्त्य के साथ सर्विया चली गईं। तमाम चुनौतियों के बाद नताशा सोशल मीडिया के जरिए फेंस के साथ जुड़ी हुई हैं।

## न्यूज़ ब्रीफ

**केएससीए टी20 लीग : द्रविड़ के बेटे समित को मैसुरु वॉरियर्स ने 50 हजार में खरीदा**



**बेंगलुरु।** भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ अब महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 लीग में खेलते हुए नजर आयेगे। समित को अपने करियर का पहला अनुबंध मिला है। समित को गत सत्र की उपविजेता मैसुरु वॉरियर्स ने 50 हजार की राशि में अपने साथ जोड़ा है। समित बल्लेबाजी के साथ ही मध्यम तेज गेंदबाजी भी करते हैं। समित कुछ बेहतर ट्रॉफी जीतने वाली कर्नाटक की अंडर 19 टीम में भी शामिल थे। केएससीए टी20 लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई। इसमें 240 खिलाड़ियों को खरीदा गया जिसमें श्रेयस गोपाल, कृष्णा गौतम और जे सुचित भी शामिल हैं। मैसुरु वॉरियर्स की टीम के कप्तान करुण नायर हैं जबकि इसमें तेज गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा भी शामिल हैं। गौतम और सुचित में रहेंगे। वॉरियर्स ने करुण को इस बार भी बरकरार रखा है। वहीं वॉरियर्स ने कृष्णा गौतम को 7.4 लाख और जे सुचित को 4.8 लाख रुपए में खरीदा है जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को एक लाख रुपए में शामिल किया गया है। इस नीलामी में सबसे अधिक रकम एलआर वेलन को मिली। उन्हें बेंगलुरु ब्लैस्टर्स ने 8.2 लाख रुपए में खरीदा है। ब्लैस्टर्स की कप्तानी मयंक अग्रवाल के पास है। महाराजा ट्रॉफी का सत्र अगले माह 15 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होगा।

## शर्मिला ने महिला हॉकी टीम में वापसी का राज बताया

**नई दिल्ली।** भारतीय महिला हॉकी टीम की फारवर्ड शर्मिला देवी ने कहा है कि अपने को बेहतर बनाने की चाहत के कारण ही वह टीम में वापसी कर पायी हैं। शर्मिला काफी समय तक टीम से बाहर रहने के बाद इसी साल एफआईएच हॉकी प्रो लीग मैच से वापसी करने में सफल रही थीं। इस खिलाड़ी ने कहा है कि वह अब टीम में अपनी जगह बनाये रखने के लिए अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाये रखने का प्रयास कर रही हैं। शर्मिला ने कहा कि टीम से बाहर होने का दौर मुश्किल भर था पर उसे दौरान वह मानसिक रूप से मजबूत बनी रही जिसका लाभ उन्हें मिला है। इस खिलाड़ी ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल टैट्ट श्रृंखला के बाद मुझे इस साल फरवरी 2024 में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला। बीच का दौर मुश्किल था पर मैं सकारात्मक रुख के साथ धैर्यपूर्वक अपने अवसर का इंतजार करती रही।' शर्मिला ने कहा 'मैंने अपने खेल पर काफी काम किया। मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थी कि वापसी का यही एकमात्र रास्ता है और मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। फारवर्ड के रूप में अपने कौशल पर काम करने के अलावा मैंने रक्षात्मक मामलों पर भी ध्यान दिया।

## पेरिस ओलंपिक के बाद टेनिस कोर्ट में नजर नहीं आयेगी कर्ब

**पेरिस।** जर्मनी की महिला टेनिस स्टार एंजेलिक कर्ब पेरिस ओलंपिक में अंतिम बार टेनिस कोर्ट में नजर आयेगी। तीन बार की ग्रैंडस्लैम चैम्पियन एंजेलिक कर्ब ने कहा है कि वह ओलंपिक के बाद टेनिस को अलविदा कह देंगी। खेलने के बाद संन्यास ले लेंगी। ऐसे में कर्ब का लक्ष्य यह बेहतरीन प्रदर्शन करना रहेगा। 36 साल की खिलाड़ी ने रोलां गैरो में फ्रेंच ओपन को छोड़कर सभी ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं और ऐसे में अब वह रोलां गैरो में ही होने वाले ओलंपिक खेलों में जीत दर्ज करना चाहेगी। पेरिस ओलंपिक में वह शुरूआती दौर में जापान की चार बार की मेजर विजेता नाओमी ओसाका से खेलेगी। कर्ब ने कहा, 'ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले मैं कह सकती हूँ कि मैं हमेशा पेरिस 2024 को याद रखूंगी क्योंकि बतौर टेनिस खिलाड़ी ये मेरा ये अंतिम पेशेवर टूर्नामेंट होगा।

# बचपन में पानी से डरने वाली धीनिधि...आज पेरिस ओलंपिक में देश की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी



**नई दिल्ली।** हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वे ओलंपिक खेलों में कम से कम एक बार शामिल हो। लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं जो यह सपना देखने की उम्र तक ओलंपिक में खेलने पहुंच जाते हैं। ऐसी ही एक खिलाड़ी हैं भारत की 14 साल की तैराक धीनिधि देसिंचु। धीनिधि भारतीय दल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। वे पेरिस में 200 मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट में अपनी चुनौती पेश करेंगी। देसिंचु भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली अब तक की दूसरी सबसे कम उम्र की प्रतियोगी है। यह रिकॉर्ड आरती शाह के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने महज 11 साल की उम्र में 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था। बेंगलुरु की नौवीं कक्षा की देसिंचु ने यूनिवर्सलिटी कोटा सिस्टम के जरिये पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार देसिंचु को लगभग तीन साल की उम्र तक बोलने में परेशानी होती थी। बाद में भी वे इतनी शर्मिली थीं कि दूसरों के पास जाने से डरती थीं। वे अपने तक ही सीमित रहना पसंद करती थीं। उनके इस व्यवहार को देखकर उनके माता-पिता ने उन्हें कोई खेल खेलने के लिए प्रेरित किया। तैराकी एक स्पष्ट विकल्प था, क्योंकि उनके घर के ठीक बगल में एक पूल था। उनके माता-पिता बस यही चाहते थे कि धीनिधि कुछ दोस्त बनाएं। देसिंचु ने कहा, लेकिन मुझे पानी पसंद नहीं आया, मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी। मैं अपने पूल में नहीं डाल सकती थी। मैं अपना फिर पानी के अंदर डालने में सात स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक होने का गौरव प्राप्त है। उनके नाम पहले से ही महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। वह 2022 हंगजो एशियाई खेलों में भी हिस्सा ले चुकी हैं। धीनिधि बेंगलुरु में डॉल्फिन एक्लेटिक्स में ट्रेनिंग लेती हैं, जिसका नेतृत्व द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता निहार अमीन करते हैं। मधु कुमार उन्हें प्रशिक्षण देते हैं।

## गंभीर या सिर्फ कोच की बात नहीं, यह भारतीय क्रिकेट के बारे में है मांजेकर

**नई दिल्ली।** टीम इंडिया में गौतम गंभीर के कार्यकाल के साथ नए युग की शुरुआत होने जा रही है। इस मुद्दे पर भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजेकर ने कहा कि यह सिर्फ कोच के बारे में नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के बारे में है, जिसके नाम चार दिवस कप हैं। मांजेकर का बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल द्रविड़ के कार्यकाल की समाप्ति के बाद गौतम गंभीर ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत के मुख्य कोच का कार्यभार संभाला है। द्रविड़ के मार्गदर्शन में, भारत ने बारबाडोस में टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता और अपने 11 साल के आईसीसी खिताब के सूखे को समाप्त किया। भारत इससे पहले दो मौकों पर भी खिताब के बेहद करीब पहुंचा था लेकिन ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं रहा। मांजेकर ने एएस पर लिखा कि भारत ने 1983, 2007, 2011 और 2023 में विश्व कप जीता था। उस समय लालचंद राजपूत, गैरी कस्टन और द्रविड़ कोच थे लेकिन हमें सिर्फ जीत और भारतीय क्रिकेट का सफर याद है। इसलिए यह भारतीय क्रिकेट के बारे में है, न कि कोच कोन है। अब समय आ गया है कि हम यह सोचना बंद कर दें कि दोनों के बीच कोई संबंध है। गंभीर का पहला कोचिंग कार्यभार दिन में श्रीलंका में शुरू होगा, जब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम फ्लोरेंस में तीन मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 मैच में मेजबान टीम से भिड़ेगी। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होने जा रहा है। ये टीम इंडिया के गंभीर युग की शुरुआत होगी और इस मैच पर सभी की नजरें रहेंगी। श्रीलंका दौरे के जरिए गौतम गंभीर अपने कोचिंग करियर की शुरुआत करेंगे। वहीं, दूसरी तरफ सूर्यकुमार यादव टी20 टीम की कप्तानी संभालेंगे। इस फॉर्मेट में सूर्या सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के सबसे लुफ्तानी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अब देखा दिलचस्प होगा कि वो कप्तानी के बाद अपने खेल में क्या बदलाव करेंगे। दूसरी तरफ गौतम गंभीर के लिए यह एक अच्छी शुरुआत करने का मौका है। सीरीज से पहले उन्होंने कई फैसले लिए हैं, जिससे उनके कार्यकाल में होने वाले बदलाव की झलक दिखाई देती है।

# भारतीय निशानेबाजों की खराब शुरुआत, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ट टीम के क्वालीफिकेशन से बाहर



**पेरिस।** भारतीय निशानेबाजों की पेरिस ओलंपिक की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारतीय निशानेबाज 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ट टीम क्वालीफिकेशन से ही बाहर हो गए और पदक दौरे में जगह नहीं बना सके। रमिता और अर्जुन नाबुता का जोड़ी कुल 628.7 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रही, जबकि एलिवेनिल वलारोवान और संधीया सिंह ने 626.3 के स्कोर के साथ 12वें स्थान पर रहकर अपना अभियान समाप्त किया। करीब आकर चूके रमिता और अर्जुन रमिता और अर्जुन तीन शॉट शेष रहने तक पांचवें स्थान पर थे और पदक दौरे के लिए क्वालीफाई करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन यह भारतीय जोड़ी 1.0 अंक से पिछड़ गई। अर्जुन ने दूसरे रिले में अच्छी शुरुआत की और 10.5, 10.6, 10.5, 10.9 के स्कोर बनाए, जबकि रमिता दूसरी सीरीज में 10.2, 10.7, 10.3, 10.1 का स्कोर करने में सफल रहीं। इनके प्रयास से यह जोड़ी शीर्ष आठ में बनी रही। हालांकि, पदक राउंड में जगह बनाने के लिए यह स्कोर पर्याप्त नहीं था।

## श्रीलंका का तेज गेंदबाज फर्नांडो अस्पताल में भर्ती, मैडिस को बनाया स्टैंडबाय

**नई दिल्ली।** श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने कहा कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज विनूरा फर्नांडो को रीसे में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद, अब वे मैडिस को स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में वैरिथ असलांका की अगुवाई वाली टी20ई टीम में ले आए हैं। फर्नांडो ने 2024 लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) में कोलंबो स्ट्रॉइकर्स के लिए आठ मैचों में 6.81 की मामूली आर्थिक दर पर 13 विकेट लेकर श्रीलंका की टी20ई टीम में वापसी की थी। स्टैंड-बाय खिलाड़ी मैडिस ने श्रीलंका के लिए केवल दो टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ एक विकेट मिला। श्रीलंका के लिए यह एक और झटका है, जब दुर्भंगा चमीरा को ब्रोकॉस्टिस और श्वसन संक्रमण से अभी भी उबरने के कारण श्रृंखला से बाहर कर दिया गया था, इसके बाद नुवान तुषारा को अगुटे में फ्रैक्चर होने से बाहर कर दिया गया था।

# श्रीलंका दौरे में बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय टीम में जगह पक्की करना चाहेंगे श्रेयस

**मुम्बई।** श्रीलंका दौरे से बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम में अपनी जगह पक्की करने उतरेंगे। श्रेयस को घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने के कारण भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था हालांकि इसके बाद उन्होंने रणजी खेली पर बीसीसीआई ने उन्हें सालाना अनुबंध नहीं दिया है। श्रेयस ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को खिताब जीतकर एक बार फिर अपने को साबित किया। केकेआर के मेंटोर गौतम गंभीर के भारतीय टीम का कोच बनने के बाद से ही श्रेयस को एक बार फिर वापसी का अवसर मिला है। उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए एकदिवसीय सीरीज में शामिल किया गया है। श्रेयस ने इस साल एकदिवसीय विश्वकप में मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में चीनदा प्रदर्शन किया था। वह मध्यक्रम के अच्छे बल्लेबाज हैं और वह श्रीलंका के खिलाफ तीनों मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। उनका लक्ष्य इस सीरीज में अधिक से अधिक रन बनाकर टीम में अपनी जगह पक्की करना रहेगा। कोच गंभीर का उन्हें साथ मिला हुआ है पर अगर वह प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो फिर गंभीर भी कुछ नहीं कर पायेंगे। वैसे भी इस समय टीम में जगह के लिए कांटे का मुकाबला है क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे में कई युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया था और वे टीम में जगह के लिए प्रयास कर रहे हैं।

# महिला एशिया कप : भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनायी



**दांबुला।** रेणुका ठाकुर और राधा यादव की शानदार गेंदबाजी के बाद स्मृति मंधाना के लगाये अर्धशतक की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनायी है। भारत की ओर से मंधाना ने 55 जबकि शेफाली वर्मा ने 26 रन बनाये। इस मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 80 रनों पर रोकने के बाद एक ही विकेट गंवाये बिना जीत के लिए मिला 81 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम की जीत में तेज गेंदबाज रेणुका और स्पिनर राधा की भी अहम भूमिका रही। रेणुका ने पारी की शुरुआत में लगातार चार ओवर डालते हुए 10 रन देकर तीन विकेट लेकर बांग्लादेश को बल्लेबाजी क्रम को खस्त कर दिया। वहीं राधा ने 14 रन देकर तीन विकेट लिए। बांग्लादेश की ओर से कप्तान निगार सुलताना 32 और शोर्ना अख्तर नावाद 19 रन ही भारतीय गेंदबाजों का कुछ हद तक सामना कर पाये। इनके अलावा अन्य बल्लेबाज विफल रहे। इस मैच में टॉस जीतकर बांग्लादेश का पहले बल्लेबाजी का फैसला गलत रहा। रेणुका ने पहले ओवर में ही विकेट ले लिया। रेणुका ने दिलारा को

# हरमनप्रीत सिंह भारत के लिए बन सकते हैं एक्स फैक्टर

**नई दिल्ली।** पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम से भी काफी उम्मीदें हैं। टीम लगातार दूसरे ओलंपिक मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण इस बार मेडल का रंग बदलने का भी माहा रखता है। ओलंपिक में पहली बार कप्तानी कर रहे हरमनप्रीत सिंह से भी टीम और फेंस को काफी उम्मीदें होंगी। भारत 27 जुलाई को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अपनी और टीम की तैयारियों पर भरोसा जताया है। गोलकीपर पीआर श्रीजेश और मनप्रीत सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं, जो अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह का यह तीसरा ओलंपिक होगा।

**नई दिल्ली।** हॉकी सुझबुझ के साथ फुर्ती का खेल है। ऐसे में युवा और अनुभवी दोनों खिलाड़ियों का टीम में अहम रोल होगा। अनुभवी खिलाड़ी अपनी रणनीति से विरोधी खिलाड़ियों को मात दे सकते हैं, जबकि युवा खिलाड़ी की ताकत सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव और उनकी फुर्ती हो सकती है। साथ ही कप्तान हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के लिए एक्स फैक्टर हो सकते हैं। हरमनप्रीत सिंह ने ड्रैग-फ्लिक सुपरस्टार के रूप में अपने नाम कमाया है और हाल के वर्षों में भारतीय हॉकी को आगे बढ़ाने में उनका एक खास योगदान रहा है। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट के दमदार फ्लिक, डिफेंस में असाधारण प्रदर्शन के साथ हरमनप्रीत सिंह ने काफी प्रशंसा हासिल की है, जिनमें से मुख्य आकर्षण टोक्यो 2020 में ओलंपिक कांस्य पदक और एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक है। छह गोल के साथ, हरमनप्रीत सिंह टोक्यो 2020 में भारतीय हॉकी टीम के शीर्ष स्कोरर रहे। हरमनप्रीत अपनी लय में रहे तो वो विरोधी टीम पर कहर बनकर टूट सकते हैं और भारत ओलंपिक में एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने में सफल हो सकता है। भारत को ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड के साथ एक रूप में रखा गया है। भारत को अगर ओलंपिक के इतिहास में सबसे सफल पुरुष हॉकी टीम के रूप में अपना दबदबा कायम रखना है तो उसे अपने खेल में शीर्ष पर रहना होगा।

## टीम को नई दिशा दे सकते हैं गंभीर: शास्त्री

**मुम्बई।** पूर्व क्रिकेट रवि शास्त्री ने कहा है कि भारतीय टीम के नए मुख्य कोच गौतम गंभीर की राह आसान नहीं होगी। शास्त्री के अनुसार गंभीर को सबसे पहले खिलाड़ियों की सोच को समझना रहेगा। एक कोच के दौरान शास्त्री ने कहा, 'खिलाड़ियों का प्रबंधन कोच का सबसे महान काम होता है। अब देखा होगा कि गंभीर इसे कैसे लेते हैं। उनका मानना है कि गंभीर के पास पर्याप्त अनुभव है और वह शीघ्र ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन किस प्रकार का है और उसकी खूबी क्या है। उन्होंने कहा हर किसी को समझने के लिए एक ही एक ही मानक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, 'गंभीर ने केकेआर के मेंटोर के तौर पर अच्छा काम किया है। वह अभी युवा हैं और टीम को नई दिशा दे सकते हैं। इसके अलावा वह अधिकतर खिलाड़ियों को करीब से जानता है क्योंकि खिलाड़ी और मेंटोर के रूप में वह अलग-अलग आईपीएल टीमों में शामिल रहा है। अब उसे मिलकर एक संयुक्त प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा, 'उसके पास अपने आइडिया भी होंगे। उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसके पास एक परिकर और स्थिर टीम है। भले ही आपको लगता हो कि आप परिकर हैं, लेकिन आपको नए आइडियाज से लाभ हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह दिलचस्प समय होगा। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह उसका सबसे अहम कार्य होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे इसमें कोई समस्या आगी क्योंकि उसने काफी लोगों के साथ खेला है और उसे लंबा अनुभव है।




**पेरिस।** जर्मनी की महिला टेनिस स्टार एंजेलिक कर्ब पेरिस ओलंपिक में अंतिम बार टेनिस कोर्ट में नजर आयेगी। तीन बार की ग्रैंडस्लैम चैम्पियन एंजेलिक कर्ब ने कहा है कि वह ओलंपिक के बाद टेनिस को अलविदा कह देंगी। खेलने के बाद संन्यास ले लेंगी। ऐसे में कर्ब का लक्ष्य यह बेहतरीन प्रदर्शन करना रहेगा। 36 साल की खिलाड़ी ने रोलां गैरो में फ्रेंच ओपन को छोड़कर सभी ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं और ऐसे में अब वह रोलां गैरो में ही होने वाले ओलंपिक खेलों में जीत दर्ज करना चाहेगी। पेरिस ओलंपिक में वह शुरूआती दौर में जापान की चार बार की मेजर विजेता नाओमी ओसाका से खेलेगी। कर्ब ने कहा, 'ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले मैं कह सकती हूँ कि मैं हमेशा पेरिस 2024 को याद रखूंगी क्योंकि बतौर टेनिस खिलाड़ी ये मेरा ये अंतिम पेशेवर टूर्नामेंट होगा।



राज कुमार पाल और सुखजीत सिंह विश्व हॉकी में अपना नाम कमाया है और हाल के वर्षों में भारतीय हॉकी को आगे

## ड्राइ आइ सिंड्रोम से बचने के लिए अपनाएं कुछ नुस्खें



तेजी से बदलते वर्क कल्चर का असर अब हमारी लाइफस्टाइल पर भी पड़ने लगा है। काम के बढ़ते बोझ की वजह से लोग अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने बिताने लगे हैं। काम के अलावा लोग अपने मनोरंजन के लिए भी लगातार स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे हो या बड़े आजकल सभी के हाथों में बस मोबाइल फोन नजर आता है। ऐसे में लगातार स्क्रीन के इस्तेमाल से आंखों में परेशानी होने लगती है, जिसमें ड्राइ आइ सिंड्रोम सबसे आम है। ऐसे में आप नीचे दिए कुछ टिप्स की मदद से आंखों की समस्या से राहत पा सकती है।

20-20-20 रूल फॉलो करें  
अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए इसे नियमित रूप से ब्रेक देना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप 20-20-20 रूल फॉलो कर सकते हैं। यह अपनी आंखों को ब्रेक देने का एक बढ़िया तरीका है। इसके लिए आपको हर 20 मिनट में कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखना होगा। इस एक एक्टिविटी की मदद से आंखों की मांसपेशियों को आराम मिल सकता है और आंखों पर पड़ने वाला स्ट्रेस कम हो सकता है।

पर्याप्त नींद लें : ऐसे लोग जो स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, उन्हें अपनी आंखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है।

आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद का लक्ष्य जरूर रखें। अच्छी नींद आंखों की नेचुरल ल्यूब्रिकेशन को बढ़ावा देती है और उन्हें सूखेपन से बचाती है।

**बड़े फॉन्ट का इस्तेमाल करें :** बहुत छोटे फॉन्ट का इस्तेमाल आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बड़े फॉन्ट का इस्तेमाल करें। ज्यादा छोटे फॉन्ट के इस्तेमाल से अनावश्यक रूप से घूरना और भंगापन हो सकता है, जिससे आंखों पर तनाव और भी बढ़ता हो जाता है। इसके बजाय, पढ़ने और देखने को ज्यादा आसान बनाने के लिए फॉन्ट बड़ा करें और स्क्रीन की सेटिंग्स बदलें।

**बड़े डिस्प्ले का इस्तेमाल करें :** कोशिश करें कि आप बड़े डिस्प्ले का इस्तेमाल करें। जैसे पढ़ने के लिए टैबलेट के बजाय लैपटॉप का इस्तेमाल करना और फोन के बजाय टैबलेट पर वीडियो देखना, दोनों ही आंखों के तनाव को काफी कम कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करने से क्लोज-अप देखने और ज्यादा फोकस करने की जरूरत कम हो जाती है।

**हाइड्रेटेड रहें :** पर्याप्त पानी पीना आंखों के स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है। डिहाइड्रेशन आंखों में सूखापन और परेशानी का कारण हो सकता है। ऐसे में अपने शरीर और आंखों को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब सारा पानी पिएं।

## मलाइका और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप कंफर्म

अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा और अभिनेता अर्जुन कपूर इस समय खबरों में बने हुए हैं। ऐसी अफवाह है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। हाल ही में इन्हें एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया। उस वक्त कहा गया था कि इन दोनों का पैचअप हो गया। लेकिन उनका ताजा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर यूजर्स भी हैरान हैं। एक इवेंट में अर्जुन और मलाइका एक-दूसरे को इग्नोर करते नजर आए। मलाइका-अर्जुन के इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स कह रहे हैं कि इनका ब्रेकअप हो गया है। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को हाल ही में जब मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया तो ऐसा लगा कि उनके बीच सबकुछ ठीक है और वे छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर अर्जुन और मलाइका ने अपने ब्रेकअप की पुष्टि कर दी है। पिछले कुछ दिनों से मलाइका और अर्जुन के ब्रेकअप की अफवाहें उड़ रही हैं और दोनों सोशल मीडिया पर गुप्त पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अब उन्हें एक फैशन इवेंट में एक-दूसरे को नजरअंदाज करते हुए अलग-अलग बैठे देखा गया। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का यह वीडियो एक पैपराजी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो ट्रेड कर रहा है और खूब कमेंट्स आ रहे हैं। आमतौर पर मलाइका और अर्जुन हर इवेंट में साथ नजर आते हैं और एक साथ बैठते हैं, लेकिन इस इवेंट में उनके बीच काफी दूरी आ गई और उन्हें अलग-अलग बिठाया गया। इवेंट के दौरान अर्जुन कपूर एक फैन के साथ सेल्फी ले रहे थे, इसी दौरान मलाइका ने उन्हें इग्नोर किया और उनसे दूर चली गई। लेकिन अर्जुन ने उस वक्त अच्छा जेस्चर दिखाया। वह अपने पीछे हाथ रख कर भीड़ के बीच से निकलने में मलाइका की मदद करते नजर आए। लेकिन इस पर मलाइका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने फिर अर्जुन कपूर की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। ये सब देख कर यूजर्स का कहना है कि इन दोनों ने अपने ब्रेकअप की खबर पक्की है।

## राधिका मदान को हो रहा है इरफान खान से बात न करने का पछतावा, कहा- वह बहुत कुछ झेल रहे थे



इस बात में कोई नहीं है कि राधिका (राधिका मदान) हिंदी की बेहतरीन अदाकारा हैं। सोप मेरी आशिकी तुम से ही लाइमलाइट बटोरने के बाद फिल्मी दुनिया में जलवा बिखेरा। पटाखा, मर्द को दर्द नहीं होता और फिल्मों में काम किया है। राधिका को साल 2020 में आई फिल्म अंग्रेजी मीडियम मिली थी। इस फिल्म में वह इरफान खान (इरफान खान) की बेटी के किरदार में दिखी थीं। दिग्गज अभिनेता के साथ स्क्रीन शेयर करना राधिका के लिए बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक बात का पछतावा है। राधिका मदान ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इरफान खान से अंग्रेजी मीडियम के सेट पर बात न करने का पछतावा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में राधिका ने कहा कि मैं हाल ही में अपने दोस्त को यह फिल्म दिखा रही थी, क्योंकि उसने इसे नहीं देखा था और मैं सोचती रही कि क्या मैं फिर कभी ऐसी फिल्म कर पाऊंगी। मुझे इरफान सर की याद आ रही थी। फिल्म के सेट पर सरफिरा एक्ट्रेस का पूरा ध्यान अपने कैरेक्टर पर था। उन्हें लगा कि शूट के बाद वह कभी इरफान संग बात करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

राधिका मदान सिनेमा डेली स राधिका ने उन्हो'ने शिहत जैसी मदान को से लोकप्रियता (इरफान खान) के साथ



असम सरकार

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग



# ई-खजाना

## भू-राजस्व भुगतान का भविष्य !

यह अभूतपूर्व पहल आपके भू-राजस्व भुगतान के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे यह प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी बन जाएगी

### प्रमुख विशेषताएं

- सभी भू-राजस्व भुगतान केवल ई-खजाना के माध्यम से
- रसीदें ऑनलाइन संग्रहीत और कभी भी सुलभ होती हैं
- बार-बार ई-केवाईसी के बिना एक बार का पंजीकरण
- लचीले भुगतान विकल्प- कोई भी राशि, कभी भी, कहीं भी
- कई भूखंड का राजस्व भुगतान एक साथ
- भू-राजस्व भुगतान का डिजिटल प्रमाण



इस सरल प्रक्रिया का पालन करें



आवेदक



सेवा सेतु पोर्टल में पंजीकरण करें



लिंक पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा। सेवा सेतु पोर्टल में पंजीकरण का लिंक उपलब्ध है



भुगतान करें

ई-खजाना तक कैसे पहुंचें:

[sewasetu.assam.gov.in](http://sewasetu.assam.gov.in) पर जाएं या अपने नजदीकी सार्वजनिक सुविधा केंद्र पर जाएं

किसी भी प्रश्न / प्रतिक्रिया / जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं

हेल्पलाइन नंबर: १८००-३४५-३५७४

सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, असम द्वारा प्रचारित

Connect with us



@diprassam [dipr.assam.gov.in](http://dipr.assam.gov.in)

असम वार्ता सब्सक्राइब करने के लिए 7636834943 पर Assam लिखकर व्हाट्सएप करें

-- Janasanyog /D/3140/24/28-Jul-24